

## भारतीयविमानपत्तनप्राधिकरण

### निगमितसंचारनिदेशालय

#### झारखंडमेंजल्दबनकरतैयारहोगादेवघरहवाईअड्डा

नई दिल्ली, 03 सितंबर, 20: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा राज्य सरकार के सहयोग से, झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का विकास कर रहा है। हवाई अड्डे के विकास का कार्य 401.34 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ जारी है और इसे बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

यह हवाई अड्डा 653.75 एकड़ भूमि में फैला होगा और इसका टर्मिनल भवन 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। 2500 मीटर लंबे रनवे वाला यह हवाई अड्डा एयर बस 320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगा। व्यस्ततम समय में 200 यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता के साथ इस टर्मिनल भवन में छह चेक-इन काउंटर और दो आगमन बेल्ट होंगी।

पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला डिजाइन और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ-साथ बैद्यनाथ मंदिर के शिखरों से अभिप्रेरित यह टर्मिनल भवन एक मिश्रित संरचना के रूप में उभर कर सामने आएगा। इसका अंदरूनी भाग क्षेत्र की संस्कृति को उजागर करती स्थानीय आदिवासी कला, हस्तशिल्प और स्थानीय पर्यटन स्थलों की तस्वीरों को दर्शाएगा।

रांची के बाद झारखंड में देवघर हवाई अड्डा दूसरा हवाई अड्डा है जो राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और उत्तरी-पश्चिम बंगाल व दक्षिण-पूर्वी बिहार के यात्रियों के लिए उपयुक्त होगा। इस हवाई अड्डे के विकास से स्थानीय पर्यटन को गति मिलेगी और स्थानीय आबादी के बड़े हिस्से, जो आजीविका के लिए पर्यटन पर निर्भर करता है, के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देवघर हवाई अड्डे के विकास से क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में भी सुधार होगा।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 25 मई, 2018 को झारखंड के सिंदरी में आयोजित एक कार्यक्रम में एक वीडियो लिंक के माध्यम से देवघर हवाई अड्डे के विकास कार्य की आधारशिला रखी गयी।

निगमित संचार निदेशालय द्वारा जारी

विवरण के लिए कृपया संपर्क करें

महाप्रबंधक (नि.सं.)

दूरभाष नं. 011-24622787



देवघरहवाईअड्डापरियोजना

रनवेऔरप्रचालनक्षेत्र